

दिल्ली में व्याप्त हवा-प्रदूषण के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की ओर से निम्न सुझाव हैं-

1. जहाँ तक संभव हो द्विपहिया वाहन जैसे:- स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि (छत के बिना वाहन) का उपयोग न करें।
2. N95 तथा N99 प्रमाणित मुखोटों (masks), जो प्रदूषित कणों की रोकथाम के लिए हैं उनका ही प्रयोग करें। ये मुखोटे दवाई की दुकान और ऑनलाइन पर सरलता से उपलब्ध हैं।
3. जिन बच्चों को हृदय/श्वास संबंधित रोग हैं उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। यदि विद्यालय आना अनिवार्य है तो उनकी दवाइयाँ, श्वसित्र(inhaler) इत्यादि अपने साथ लेकर आएँ तथा विद्यालय की रूग्णावास (infarmmary) में रख दें (कनिष्ठ विद्यालय के छात्रों के लिए)।
4. प्रातःकाल तथा देर दोपहर को बाहर खेलना, घूमना आदि क्रियाओं को स्थगित कर दें। वातावरण में सुधार होने तक विद्यालय की ओर से सभी बाहर खेलने तथा घूमने की क्रियाओं को स्थगित कर दिया है।
5. संतुलित भोजन का सेवन प्रदूषित वातावरण से स्वास्थ्य की रक्षा करता है।
6. अभिभावकों से निवेदन है कि वातावरण में सुधार होने तक बच्चों को घरों के भीतर रहने के महत्त्व को विस्तार से समझाएँ।